

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 13-10-2020

चोरी के आरोप में एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के निर्देशन में अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी के मार्गदर्शन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी खजनी महोदय के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष मृत्युन्जय कुमार राय के नेतृत्व में चौकी प्रभारी महुआडाबर उ०नि० श्री उदय भान सिंह मय हमराह कां सुनील कुमार व कां लक्ष्मण प्रसाद के विनावर तलाश वाछित अभियुक्त व वारन्टी पतारसी सुरागरसी मे क्षेत्र में मामूर था कि जरिए मुखविर सूचना मिली कि मु०अ०सं० 697/2020 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित वादी संजय साहनी साकिन महुआडाबर की चोरी गयी गाय को उसी के गांव का मेहंदी हसन उर्फ झिनक उसी गांव के तौलन दूबे के बगीचे में आम के पेड़ में बांध कर छुपा कर रखा है और उसे ले जाने के लिए गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है यदि शीघ्रता किया जाय तो गिरफ्तारी व बरामदगी हो सकती है इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराते हुए मुखबिर खास को साथ लेकर उपरोक्त बगीचे पहुँचा गया तो मुखबिर इशारा करके वहां से हट बढ़ गया हमराही कर्मचारीगण के साथ नजदीक पहुच कर देखा कि एक गाय लाल रंग की आम के पेड़ में बंधी है तथा एक व्यक्ति उसके रस्सी को खोल रहा है जिसके बारे में पूछा गया तो रस्सी छोड़ कर भागने लगा हमराही कर्मचारीगण की मदद से घेर कर बगीचे मे पकड़ लिया गया नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मेहंदी हसन उर्फ झीनक पुत्र जुमेरात निवासी ग्राम महुआडाबर थाना खजनी जनपद गोरखपुर बताया उक्त बंधी गाय के बारे में पूछा तो बताया कि साहब मेरे से गलती हो गयी यह गाय कल मैने संजय साहनी की चोरी की है जो उसके घर के पीछे खेत में चर रही थी । जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 697/2020 धारा 379,411 भादवि मे गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-

मेहंदी हसन उर्फ झीनक पुत्र जुमेरात निवासी ग्राम महुआडाबर थाना खजनी जनपद गोरखपुर

बरामदगी –

एक अदद गाय लाल रंग की

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. उ०नि० उदय भान सिंह
2. कां० सुनील कुमार
3. कां० लक्ष्मण प्रसाद